

# तीन लाख की नकली शराब के साथ छह गिरफ्तार

Published By: Newswrap | हिन्दुस्तान टीम,मिर्जापुर

- Last updated: Sat, 13 Jun 2020 11:14 PM
- [हिंदी न्यूज](#) > [उत्तर प्रदेश](#) > [मिर्जापुर](#) > तीन लाख की नकली शराब के साथ छह गिरफ्तार



लखनऊ एसटीएफ व लालगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने तेंदुआ कला गांव में शनिवार को छापेमारी कर तीन लाख की नकली शराब संग छह तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। कमरे से 80 पेटी नकली शराब, कार, बाइक, पांच मोबाइल व नकली रैपर व खाली शीशी बरामद हुआ। तस्कर गांव में ही एक कमरे में नकली शराब बनाने का कारोबार करते थे। लेकिन स्थानीय पुलिस को आज तक नकली शराब बनाने के धंधे की भनक तक नहीं लगी। एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त टीम को सुबह मुखबीर से सूचना मिली कि लालगंज के तेंदुआ कला गांव में मिलावटी शराब बनाकर बेचने का धंधा जोरों पर चल रहा है। सूचना पर एसटीएफ व लालगंज की संयुक्त टीम ने सुबह लगभग नौ बजे तेंदुआ कला गांव जाकर अनिल जायसवाल के घर छापेमारी की। टीम के पहुंचते सभी भागने लगे। पुलिस ने कमरे में मौजूद छह लोगों को धर दबोचा। कमरे से टीम ने 40 पेटी ब्लू लाइन व 40 पेटी बॉम्बे व्हिस्की, 2500 खाली शराब की शीशी, 2500 ढक्कन, 1500 अदद रैपर बॉम्बे व्हिस्की, 800 रैपर ब्लू लाइन, 2000 फर्जी क्यू बार कोड, 3 गैलन शराब बनाने का केमिकल/स्प्रीट, 100 ग्राम अजनता लेमन येल्लो सिन्थेटिक फूड कलर, जनता सोडियम हाइड्रो सल्फाइड व 1 कार, एक बाइक व पांच मोबाइल बरामद हुआ। तीन लाख की खराब संग कुल दस लाख का सामान बरामद किया। पुलिस ने अभियुक्त अनिल जायसवाल निवासी तेंदुआ कला थाना लालगंज, संजय अग्रहरी निवासी रामपुर सक्तेशगढ़ थाना चुनार, लकी जायसवाल निवासी दुबार कला थाना लालगंज, शिवम जायसवाल निवासी कोठिलवां थाना चुनार, अभिषेक दुबे निवासी उदरहा थाना कपसेठी जनपद वाराणसी, आशीष यादव निवासी ईशुपुर थाना बड़ागांव वाराणसी को जेल भेज दिया। अभियुक्त मिलावटी शराब बनाकर बिहार में बेचते थे।

Source: <https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/mirzapur/story-six-arrested-with-fake-liquor-of-three-lakhs-3279383.html>